



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कंपनी सचिवालय

दिनांक : - 08.02.2021
सं:1:05:126 (3):1:सीएस

कार्यालय आदेश सं. सीएस/सं.09/आईटीसी/2020

विषय: - ट्रेडिंग विंडो खुलने संबंधी

संदर्भ.: दिनांक 29 दिसंबर 2020 का कार्यालय आदेश सं. सीएस/सं.08/आईटीसी/2020

कंपनी सचिवालय यूनिट के दिनांक 29 दिसंबर 2020 के परिपत्र द्वारा अधिसूचित अनुसार, "पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता एवं अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटन के लिए व्यवहार एवं प्रक्रिया संहिता" ("संहिता") की शर्तों के अनुसार, पीएफसी के इक्विटी शेयरों एवं सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए ट्रेडिंग विंडो दिनांक 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम की घोषणा के पश्चात 1 जनवरी, 2021 से अड़तालिस (48) घंटे की समाप्ति तक बंद थी।

इस संबंध में, सूचित किया जाता है कि पीएफसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की 408वीं बैठक बृहस्पतिवार, फरवरी 11, 2021 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य मामलों के साथ दिनांक 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों (एकल एवं समेकित) को मंजूरी दी जाएगी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सूचित किया जाता है कि पीएफसी की प्रतिभूतियों में व्यापार करने हेतु ट्रेडिंग विंडो शनिवार, 13 फरवरी, 2021 तक बंद रहेगी और 14 फरवरी, 2021 से पुनः खुलेगी। सभी नामित कार्मिकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान पीएफसी के इक्विटी शेयरों एवं सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों सहित कंपनी की प्रतिभूतियों में ट्रेड न करें।

मनोहर बलवानी

**मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव और
कोड हेतु अनुपालन अधिकारी**

वितरण-

सभी संबंधित व्यक्ति ("पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता एवं अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटन के लिए व्यवहार एवं प्रक्रिया संहिता" में यथापरिभाषित) और सहायक कंपनियों के निदेशक एवं कार्मिक।

1. कंपनी सचिव, पीएफसीसीएल
2. कंपनी सचिव, आरईसीएल

- इस परिपत्र को आरईसी में सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित करने के अनुरोध के साथ।